



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 13.11.2020

1-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 3000 रूपये नकद, 01 लैपटॉप व 12 डेस्कटॉप बरामद।

दिनांक 13-11-2020 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 1-शक्ति कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी एम- ब्लाक पाण्डेय जी मकान शकूरपुर दिल्ली 2-अंकित कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी एल ब्लाक म0नं0-244, प्रताप विहार गाजियाबाद को आईथम टावर सेक्टर-62, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 17 मोबाइल फोन (की-पेड), 04 स्मार्ट फोन, 01 लैपटॉप, 3000/- रूपये नकद व 12 डेस्कटॉप बरामद किये गये है।

### **अपराध करने का तरीका-**

अभियुक्त फर्जी वैबसाइट Myindiamoney.com बनाकर उस वैबसाइट पर लोन दिलाने का प्रलोभन देकर है, आधार कार्ड पैन कार्ड स्टेटमेन्ट आदि का प्रयोग कर धोखाधडी करते थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-**

- 1-शक्ति कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी एम- ब्लाक पाण्डेय जी मकान शकूरपुर दिल्ली
- 2-अंकित कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी एल ब्लाक म0नं0-244, प्रताप विहार गाजियाबाद

## **अभियोग का विवरण-**

1-मु0अ0सं0-580/2020 धारा-420, 406 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा।

## **बरामदगी का विवरण-**

1- घटना में प्रयुक्त 17 मोबाइल फोन (की-पेड)

2- 04 स्मार्ट फोन

3- 01 लैपटॉप

4- 3000/- रूपये नकद

5- 12 डेस्कटॉप

## **2-थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध पटाखे बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पटाखों का 01 बोरा बरामद।**

दिनांक 13.11.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध पटाखे बेचने वाला अभियुक्त आदेश पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी अयोध्यागंज पत्थर मण्डी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को अयोध्यागंज पत्थर वाली मण्डी के पास थाना दादरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 बोरा अवैध पटाखे बरामद किये गये हैं।

## **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

आदेश पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी अयोध्यागंज पत्थर मण्डी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

## **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 772/2020 धारा 188 भादवि0 व 5, 9बी(1) विस्फोटक अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

## **बरामदगी -**

01 बोरा अवैध पटाखे ।

3-थाना ईकोटेक 3 पुलिस द्वारा ऑनलाइन लॉटरी निकलने का झांसा देकर ठगी करने वाले नाइजीरियन ठग गिरोह के 05 भारतीय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 26 एटीएम डेबिट कार्ड (विभिन्न बैंको के), 11 पास बुक (विभिन्न बैंको की), 07 चैक बुक (विभिन्न बैंको के), 11 मोबाइल फोन , एक पासपोर्ट, 01 डायरी , 36100 रुपये नगद व एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 13.10.2020 को थाना ईकोटेक 3 पुलिस द्वारा इन्टर्नेशनल ऑनलाइन लॉटरी निकलने का झांसा देकर व अन्य प्रकार से ठगी करने वाले नाइजीरियन ठग गिरोह के 05 भारतीय सदस्यों अंसार, इरफान शाह, मोहसीन डपाली, गौतम सिंह, अफजाल पठान को खेड़ा चौगानपुर गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र ईकोटेक 3 से गिरफ्तार किया गया है। यह लोग रामपुर, पीलीभीत, बरेली, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यह गिरोह भोले भाले जनता के लोगों को उनकी ऑनलाइन लॉटरी लगाने का झांसा देकर प्रोसिडिंग के नाम पर उनके पैसे विभिन्न भारतीय बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लेते थे। इस गिरोह का सरगना एक सैम नाम का एक नाइजीरियन है जो दिल्ली में कहीं रहता है। यह लोग अपने एक फरार साथी उमर अंसारी निवासी पीलीभीत के माध्यम से गैंग सरगना सैम के टच में रहते थे। (गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है)

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

- 1.अंसार पुत्र फकीर बक्श अंसारी नि० परशुराम पुर थाना कुलहडिया जिला बरेली
- 2.गौतम सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाटव नि० म०नं० आर०सी० 73 गली नं० 5 दीपक बिहार ग्राम खोडा थाना खोडा जिला गाजियाबाद
- 3.इरफान शाह पुत्र कल्लु शाह नि० ग्राम रिछोला सबल थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत
- 4.मोहसीन डपाली पुत्र यामीन डपाली नि० मोहल्ला घेर मियां खुसरो बाग रोड निकट शीसे वाली मस्जिद रामपुर थाना गंज जिला रामपुर
- 5.अफजाल पठान पुत्र इश्हाक खान नि० रोड नं० 1 रहपुरा थाना इज्जत नगर जिला बरेली

### **अभियोग का विवरण-**

- 1.मु.अ.सं. 557/2020 धारा 418,420,467,468,471 भादवि थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 26 एटीएम डेबिट कार्ड (विभिन्न बैंको के)
- 2.11 पास बुक (विभिन्न बैंको की)

3. 07 चैक बुक (विभिन्न बैंको के)
- 4.11 मोबाइल फोन
5. एक पासपोर्ट
6. 01 डायरी
7. 36100 रुपये नगद
8. एक मोटर साइकिल टीवीएस स्पोर्टस रजि० यूपी 16 सीई 5637

### प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 13.11.2020 को समय करीब 1800 बजे थाना सेक्टर 24 क्षेत्र अंतर्गत मोरना बस स्टैंड पर एक महिला जो कि सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में लखनऊ से आई थीं। वहां से एक ऑटो में अपना सामान लेकर मोरना बस स्टैंड पर आई जहां पर उनका ऑटो में रखा हुआ कीमती सामान रह गया था, जिसे मोरना चौकी प्रभारी थाना सेक्टर 24 द्वारा 2 घंटे बड़ी मेहनत और लगन से खोज कर महिला के सुपुर्द किया गया। उक्त महिला द्वारा कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर पुलिस के कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की गई।